

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264786
SG-DL-E-18072025-264786असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2025/आषाढ 25, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 132
No. 207]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2025/ASHADHA 25, 1947	[N. C. T. D. No. 132

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (पुलिस-II) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 15 जुलाई, 2025

फा0 सं0 2/1/88/गृ0पु0-II/पार्ट-I/980-83.— जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि दिनांक 19/07/2025 से दिनांक 18/10/2025 की अवधि के दौरान, आयुक्त पुलिस, दिल्ली भी उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अंतर्गत निरोधक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुंडू, उप-सचिव (गृह-III)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 15th July, 2025

F. No. 2/1/88/HP-II/Pt.-I/980-83.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19/07/2025 to 18/10/2025 the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUNDU, Dy. Secy. (Home-III)